



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1940 (श0)  
(सं0 पटना 450) पटना, मंगलवार, 19 मार्च 2019

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद

अधिसूचना  
18 मार्च 2019

सं0 02/परी0-01(राज0)-05/2018-593—संख्या 02/परी0-01(राज0)-11/2017-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1883 दिनांक 10.10.1961 द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-14393 दिनांक 15.11.2017 द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु दायित्व प्रदान किया गया है। उक्त के आलोक में निर्गत राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या-02/परी0-01(राज0)-11/2017-2931 दिनांक 01.12.2017 एवं अधिसूचना संख्या-1300, दिनांक 29.05.2018 द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति ने राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा हेतु नये पाठ्यक्रम एवं नई प्रणाली तय की थी। उक्त अधिसूचना के प्रख्यापित होने के पश्चात् कारा विभाग के पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु परामर्श की मांग की गयी थी। प्राप्त परामर्श के आधार पर कारा विभाग के पर्षदीय अधिसूचना संख्या-2931, दिनांक 01.12.2017 द्वारा पूर्व अधिसूचित विषयों एवं पाठ्यक्रम तथा विषय कोड को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	सेवा संवर्ग	विषय
1.	बिहार कारा सेवा	<ol style="list-style-type: none"> <li>हिन्दी लिखित (कोड-01)</li> <li>कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02)</li> <li>दण्ड विधि विषय कोड-(03)</li> <li>बिहार लोकल लॉ(कोड-05)</li> <li>सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07)</li> <li>बिहार कारा सेवा सम्बन्धी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-11)</li> </ol>
2.	बिहार सहायक कारा अधीक्षक सेवा	<ol style="list-style-type: none"> <li>हिन्दी लिखित (कोड-01)</li> <li>कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02)</li> <li>दण्ड विधि विषय कोड-(03)</li> <li>बिहार लोकल लॉ(कोड-05)</li> <li>सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07)</li> <li>बिहार कारा सेवा सम्बन्धी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-11)</li> </ol>

3	बिहार प्रोबेशन सेवा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. हिन्दी लिखित (कोड-01)</li> <li>2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02)</li> <li>3. दण्ड विधि विषय कोड-(03)</li> <li>4. बिहार लोकल लॉ(कोड-05)</li> <li>5. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-07)</li> <li>6. बिहार प्रोबेशन सेवा सम्बन्धी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-11 A)</li> </ol>
---	---------------------	---

2 . उक्त आलोक में तीनों सेवाओं के विशेष प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है:-

**Syllabus for Special Paper for Bihar jail/ Assistant jail Superintendent Service (Code-11)**

- (1) Bihar Prison Manual, 2012
- (2) The Suppression of Immoral Traffic Act, 1956 & amendments
- (3) The Juvenile Justice (Care and protection of Children) Act, 2015
- (4) The Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of children) Rule, 2017
- (5) The Protection of Human rights Act, 1993
- (6) अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली-2012
- (7) बिहार कैदी (अस्थायी निर्मुक्ति) नियमावली, 1973
- (8) Case Law- Upendra Nath Chaudhary Vs. the High Court of Judicature at Patna (19-04-2007)
- (9) Criminology and Penology- by N.V. Paranjape
- (10) Criminal Psychology-by Navin Kumar
- (11) Penology and Correctional administration- by J.C.Chaturvedi
- (12) Prisons Act, 1894.
- (13) Prisoners Act, 1900.
- (14) Reformatory School Act, 1897.
- (15) Preventive Detention Act, 1950.
- (16) Identification of Prisoners Act, 1920.

**Syllabus for Special Paper for Bihar Probation Service (Code-11 A)**

- (1) The Probation of Offenders Act, 1958
  - (2) Section 360 in The Code of Criminal Procedure, 1973 & Section 562 of the Code, 1898
  - (3) The Bihar Probation of Offenders Rules, 1959.
  - (4) The Juvenile Justice (Care & Protection of children) Rules, 2015
  - (5) The Bihar Juvenile Justice (Care & Protection of children) Rules, 2017
  - (6) The Bihar Probation Service Rule, 2014 & amendments
  - (7) The Bihar Prisoners' (Parole) Rules, 2012
  - (8) Victim of the Offence Welfare Trust, 2012
  - (9) The Suppression of Immoral Traffic Act, 1956 & amendments.
  - (10) The Protection of Human Rights Act, 1993
  - (11) The Constitution of State Sentence Remission Board-Notification No. 3106 date 10.12.2002.
  - (12) The Bihar Prison Manual.  
Chapter 3- Classification of Jails (Rules 5 to 7)  
Chapter 4- Organizational Structure (Rules 8 to 30)  
Chapter 15- Release (Rules 474 to 487) Only.
  - (13) Case Law: Upendra Nath Chaudhary vs the High court of Judicature at Patna 2007 (19.04.2007)
  - (14) Reformatory Schools Act. 1897(Including Borstal School)
3. अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, बिहार के आदेशानुसार,  
सुरेन्द्र झा,  
सचिव, राजस्व पर्वद, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)450-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>